

प्रेस नोट दिनांक 17.09.2021 थाना नागल जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेश निर्देशो के अनुपालन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी देवबन्द महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री बीनू चौधरी थानाध्यक्ष थाना नागल के कुशल नेतृत्व मे थाना नागल पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.09.2021 को अभियुक्त गण 1-नसीम पुत्र कय्यूम 2-नाजिम पुत्र कय्यूम निवासी गण ग्राम पाण्डौली थाना नागल जनपद सहारनपुर को 600 ग्राम अवैध चरस(सुल्फा) सहित गिरफ्तार किया गया है उपरोक्त दोनो अभियुक्त गणो के विरुद्ध थाना नागल पर पूर्व मे भी कई मुकदमे दर्ज है, जिसके सम्बन्ध मे थाना नागल मु0अ0स0 186/21 धारा 8/20 एनडीपीएस व मु0अ0स0 187/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट दर्ज करते हुए अभियुक्तों का मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1-नसीम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल जनपद सहारनपुर
- 2-नाजिम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 1-330 ग्राम चरस नाजिम से
- 2-270 ग्राम चरस नसीम से

अभियुक्त गण का अपराधिक इतिहास:-

नसीम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल सहारनपुर	1	मु0 अ0 सं0 189/19 धारा 3/25 आर्म्स ACT	नागल	सहारनपुर
	2	मु0 अ0 सं0 251/19 धारा 3/5/8 सीएस ACT व 11 पशु क्रूरता अधि0	नागल	सहारनपुर
	3	मु0 अ0 सं0 138/20 धारा 307 भादवि	नागल	सहारनपुर
	4	मु0 अ0 सं0 139/20 धारा 3/25/27 आर्म्स ACT	नागल	सहारनपुर
	5	मु0 अ0 सं0 142/20 धारा 3/8 सीएस ACT व 11 पशु क्रूरता अधि0	नागल	सहारनपुर
	6	मु0 अ0 सं0 09/21 धारा 2/3 गैंग्स्टर एक्ट	नागल	सहारनपुर
नाजिम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल सहारनपुर	1	मु0 अ0 सं0 275/18 धारा 3/5A/8 सीएस ACT	नागल	सहारनपुर
	2	मु0 अ0 सं0 32/19 धारा 2/3 गैंग्स्टर ACT	नागल	सहारनपुर
	3	मु0 अ0 सं0 34/19 धारा 3/5A/8 सीएस ACT	जनकपुरी	सहारनपुर
	4	मु0 अ0 सं0 103/20 धारा 2/3 गैंग्स्टर ACT	जनकपुरी	सहारनपुर
	5	मु0 अ0 सं0 32/21 धारा 3/5K/8 सीएस ACT	नागल	सहारनपुर
	6	मु0 अ0 सं0 67/21 धारा 3/25 A ACT	नागल	सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1-श्री बीनू चौधरी थानाध्यक्ष नागल सहारनपुर
- 2-श्री राजेन्द्र गिरि वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना नागल सहारनपुर
- 3-उ0नि0 रोबिन राठी थाना नागल सहारनपुर
- 4-का0 586 राजीव पंवार थाना नागल सहारनपुर
- 5-का0 2175 गोपाल सिंह थाना नागल सहारनपुर
- 6-का0 1565 विनय कुमार थाना नागल सहारनपुर (चालक)

प्रेस विज्ञापित दिनांक 17-09-2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में ग्रामीण क्षेत्र के समस्त थानों द्वारा एक माह में लम्बित 392 वाहनों एवं 897 अन्य मालों का कराया गया नियमानुसार निस्तारण:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा थानों पर खड़े वाहन एवं अन्य माल मुकदमाती के निस्तारण कराने हेतु समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में एक माह पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में ग्रामीण क्षेत्र के समस्त थानों में लम्बित कुल 392 वाहनों एवं 897 अन्य मालों का निस्तारण कराया गया। इसके अतिरिक्त 878 वाहनों व 684 माल मुकदमाती कुल 1562 मालों के निस्तारण की पत्रावली मा0 न्यायालय प्रेषित की गई। आदेश प्राप्त होने पर शेष वाहनों/मालों का नियमानुसार निस्तारण कराया जायेगा। निस्तारण कराये गये वाहनों एवं मालो का संख्यात्मक विवरण निम्नवत् हैं:-

क्र० सं०	नाम थाना	वाहन	अन्य माल	कुल
1	फतेहपुर	37	05	42
2	देवबन्द	30	119	149
3	नागल	54	10	64
4	बड़गांव	09	111	120
5	बेहट	09	304	313
6	मिर्जापुर	09	0	09
7	बिहारीगढ	29	0	29
8	गंगोह	11	23	34
9	नानौता	06	0	06
10	तीतरों	09	48	57
11	नकुड़	167	121	288
12	सरसावा	22	207	229
	कुल योग	392	897	1340

प्रेस नोट दिनांक 17.09.2021

थाना नागल जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेश निर्देशो के अनुपालन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी देवबन्द महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री बीनू चौधरी थानाध्यक्ष थाना नागल के कुशल नेतृत्व मे थाना नागल पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.09.2021 को अभियुक्त गण 1. रामा पुत्र पीरू 2. करण सिंह पुत्र जम्मल निवासी गण ग्राम सोहनचिडा थाना नागल जनपद सहारनपुर 3. सुरेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र फूल सिंह नि0 ग्राम आमकी दीपचन्दपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर को जंगल ग्राम सोहनचिडा मे कच्ची शराब की कसीदगी कर शराब त्रीवता बढ़ाने के लिये यूरिया मिश्रित करते हुये शराब की भट्टी सहित 9 लीटर अपमिश्रित शराब व 70 लीटर लाहन सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त अर्जुन पुत्र आशाराम निवासी ग्राम सोहनचिडा थाना नागल सहारनपुर मौके का फायदा उठाकर भागने मे कामयाब रहा जिसके सम्बन्ध मे थाना नागल पर मु0अ0स0 185/21 धारा 60(2) आबकारी अदिनियम व 272/273 भादवि पंजीकृत किये गये श्री बीनू चौधरी थानाध्यक्ष थाना नागल द्वारा समाज को अपराध मुक्त करने के लिये लगातार अपराधियो के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही से आम जनमानस ने राहत की सांस ली है तथा अपराधियो मे हडकम्प मचा हुआ है जनता के लोगो द्वारा पुलिस के इस सराहनीय कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है

अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1-रामा पुत्र पीरू निवासी ग्राम सोहनचिडा थाना नागल जनपद सहारनपुर
- 2-करण सिंह पुत्र जम्मल निवासी ग्राम सोहनचिडा थाना नागल जनपद सहारनपुर
- 3-सुरेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र फूल सिंह नि0 ग्राम आमकी दीपचन्दपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर
- 4-अर्जुन पुत्र आशाराम निवासी ग्राम सोहनचिडा थाना नागल सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 1-एक प्लास्टिक की कैन मे 9 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब
- 2-एक ड्रम लोहा का
- 3-प्लास्टिक का डिब्बा
- 4- 02 किलोग्राम यूरिया
- 5-एक परात लोहा
- 6-एक प्लेट स्टील की
- 7-70 लीटर लाहन(मौके पर नष्ट किया गया)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1-श्री बीनू चौधरी थानाध्यक्ष नागल सहारनपुर
- 2-श्री राजेन्द्र गिरि वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना नागल सहारनपुर
- 3-उ0नि0 कैलाश चन्द शर्मा थाना नागल सहारनपुर
- 4-का0 586 राजीव पंवार थाना नागल सहारनपुर
- 5-का0 2175 गोपाल सिंह थाना नागल सहारनपुर
- 6-का0 1565 विनय कुमार थाना नागल सहारनपुर (चालक)

प्रेस नोट दिनांक 17-09-2021

थाना सरसावा पुलिस द्वारा नाजायज डोडा पोस्त सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 16-09-2021 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा रायपुर रोड ब्लॉक के पास वाली गली से अभि० अहमद पुत्र हनीफ निवासी मौ० मिरधान कस्बा व थाना सरसावा, सहारनपुर को 3.1 किग्रा० डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु०अ०सं० 328/21 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना सरसावा पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 16-09-2021 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा रायपुर रोड ओवर ब्रिज के पास से अभि० सोनू उर्फ सूंडा पुत्र सुमेरचन्द निवासी रविदास मन्दिर के पास कस्बा व थाना सरसावा, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु०अ०सं० 329/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा नशीली गोलियों सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 16-09-2021 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा पी०डब्ल्यू०डी० कार्यालय के गेट के पास से अभि० आकिल मलिक पुत्र सगीर अहमद निवासी गली नम्बर 08 राजेन्द्र नगर बनिया वाला घर थाना ब्रहमपुरी, मेरठ को 150 गोली नशीली एल्प्रोजोलाम सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु०अ०सं० 268/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 16-09-2021 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा गुगाल मेला गेट से अभि० रिहान पुत्र रिजवान निवासी मौ० एकता कालोनी थाना कुतुबशेर, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु०अ०सं० 325/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

**मीडिया/सोशल मीडिया सेल
जनपद सहारनपुर।**